



हाथियों के बारे में :

1. हाथी एक लम्बी आयु वाले और अधिक इलाका वव्यापक प्राणी हैं
2. वे विशाल इलाकों में आहार व पानी की तलाश करते हैं
3. हाथी केवल जंगलों में ही नहीं रहते , वल्कि वे इंसानी बस्ती तथा चाय की बागानों को भी अपनी आवास का हिस्सा मानते हैं
4. हाथी खेतों की फसल वे हमारे घरों में रखी अनाज खाने क लिए आते हैं , इन नुकसानों का निवारण करना हमारे हित में हैं
5. हाथी एक सूजन और बुद्धिमान जिव हैं। इनके परिवार प्रणाली हमसे मिलते जुलते हैं , और हमारी तरह इन्हे भी दर्द, पीड़ा , क्रोध और भय का एहसास होता हैं। यदि हम हाथियों से आक्रामक तरीके से पेश आएं , तो वे भी हमारे प्रति आक्रामक रुख अपनाएं
6. हाथी जंगलो और वनो को बनाये रखने में एक एहम भूमिका अदा करते हैं। अधिक वर्षा और हमारी पानी की ज़रूरतों की पूर्ती के लिए वन अत्यावश्यक हैं.

हाथी से स्वयं की सुरक्षा करना :

1. अपने आसपास हाथियों की मौजूदगी की अपेक्षा हमेशा रखे और उन्हें उचित सम्मान दे
2. काम रौशनी वाले इलाकों में या दिन ढलने के बाद अधिक सावधानी बरतें। मुमकिन हैं की अंधेरा होने के कारण आप अज्ञात ही हाथियों के बहुत समीप आ पहुंचे
3. सूर्योदय से पहले सौच क लिए बहार जाते समय हाथियों के प्रति अत्यधिक सावधानी बरते। आदर्श तौर से घर-आंगन में ही शौचालय का निर्माण करे। यदि बहार जाना ही पड़े तो टोर्च का इस्तेमाल ज़रूर करे
4. किसी भी परिस्थिति में हाथियों का पीछा न करे, इससे आपके जीवन पर खतरा बढ़ जायेगा
5. हाथियों को हमेशा रास्ता दे, उनको पथ और पगडंडियों को बाधित न करे। अगर आपका हाथियों से सामना हो तो थोड़ी देर इंतज़ार करे और उन्हें वहां से चले जाने का अवसर दे

हाथियों से फसल की रक्षा करना :

1. अगर हाथी खेतो में मौजूद हो तो उन्हें भगाते वक्त हताहत होने की सम्भावना रहती हैं
2. हाथी आपके खेत में प्रवेश न करे इसके हेतु खेतके चरों ओर solar घेरा लगाए
3. टीन के डब्बे और बोतलों ढीले अंदाज़ से टंगे रख एक सरल घेरे का निर्माण करे जिससे हाथी के खेत के भीतर आने की कोसिस करने पर शोर हो
4. खेतों के सीमाओं की रखवाली के लिए स्थानीय दलों की रचना करे , अगर लोग मजूद हों तो हाथी वहां से खेतों में प्रवेश नहीं करेंगे
5. फसलों और हड्डिया को घर में संग्रह कर के न रखे , हाथी वालपूर्वक भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अनाज का भंडार एक सार्वजनिक ईमारत में संग्रह कर रखा जा सकता हैं, जिससे solar fence या trench से रक्षित किया जा सकता हैं
6. अगर अनाज का भंडार घर में रखना ही हैं तो उन कमरों में लोग न सोये। इससे हाथियों द्वारा भोजन हेतु दीवार तोड़ते समय घायल होने का खतरा कम होगा।

हाथियों क साथ रहना :

1. हाथियों के चलने और पाणी तक पहुंचने के रास्तों को बाधित न करें
2. हाथियों को कानूनन सुरक्षा प्राप्त हैं , इसलिए ऐसा कुछ न करे जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे
3. यदि आपसी सम्मान और सुबोध हो तों हम हाथियों क साथ सहवागी रह सकते हैं बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाय
4. हाथियों के आवाजाई की सुचना इलाके के पंचायतों को और वन विभाग को phone या sms देवारा ज़रूर दे ताकि वे स्थानीय लोगों को सूचित कर सके। ऐसी जानकारी जिंदगियाँ बच सकती हैं